

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.FSOID/R/E/21/00064

Applicant Name ARJUN

Text of Application 1) nature of duty of Deputy Ranger 2) Heirarchy of promotion from Deputy Ranger with duration 3) offices located in South Zone 4) transfer policy

Reply of Application Please find the attachment for information.

| SN. | Action Taken | Date of Action | Action Taken By | Remarks |
|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | RTI REQUEST RECEIVED | 28/09/2021 | Nodal Officer | |
| 2 | REQUEST FORWARDED TO CPIO | 29/09/2021 | Nodal Officer | Forwarded to CPIO(s) : (1) Kamal Pandey |
| 3 | REQUEST DISPOSED OF | 08/10/2021 | Kamal Pandey- (CPIO) | |

[Print](#)

संख्या-13-15/2021-प्रशा०-1704
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पो०ऑ०-आई०पी०ई०, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून-248195

दिनांक २ अक्टूबर, 2021

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून।

विषय:- RTI under the Right to information Act, 2005.

संदर्भ:- पत्र संख्या:-13-14/2021-आर०टी०आई०-1652 दिनांक 30.09.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि Shri Arjun, Karnatka के आर०टी०आई० आवेदन पत्र संख्या:-Registration No. FSOID/R/E/21/00064 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा मांगी गई प्रशासन अनुभाग से संबंधित सूचना प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,



(डॉ० सुनील चन्द्र)
उप निदेशक (का० एवं प्रशा०)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

Information in respect of Sr.No. 1 to 4 given below:-

1. Nature of duty of Deputy Ranger.

Ans: Information is enclosed, annexure 'A'

2. Hierarchy of promotion from Deputy Ranger with duration.

Ans: As given below:

| Post | Duration |
|----------------------------|-----------------|
| Assistant Director | 08 Yrs. |
| Senior Technical Assistant | 05 Yrs. |
| Junior Technical Assistant | 08 Yrs. |
| Deputy Ranger | -- |

3. Offices located in South Zone.

Ans: Yes.

4. Transfer policy

Ans: प्रशासन अनुभाग में उपलब्ध नहीं है।

DUTIES OF THE POST OF DEPUTY RANGER

1. To act as Assistant Crew Leader under Sr. Technical Assistant/ Jr. Technical Assistant who heads the crew. In such circumstances he entirely works at the instructions of Crew leader and help him in different works like location of sample plot, taking of measurements, completion of field forms etc.
2. Some times experienced Dy. Rangers are made crew leaders. In that case they perform all the duties of the Jr. Technical Assistant as defined for a Jr. Technical Assistant.
3. To write small notes/reports on Survey matters.
4. To know map, compass reading and to give proper guidance to the party.
5. To locate the grid centre.
6. To lay out a plot.
7. To fell tree and cross cut in connection with volume study.
8. To fill field forms correctly.
9. To scrutinize the field forms at office.
10. To collect the Range/Industrial information and other Data.